

बलिया दर्शन



VOLUME 38

01/FEB/2019 TO
28/FEB/2019

ई-पत्रिका



E NEWSLETTER 1

इतिहास के झरोखे से :- बलिया

प्राचीन काल से ही वर्तमान बलिया जिला खोसला की राजधानी में सम्मिलित था। उत्तर पूर्वी दिशा में गंगा नदी खोसला की सीमा निर्धारित करती थी और पूरा बलिया जिला उसी में जुड़ा हुआ था।

सूर्यवंशी इस खोसला प्रदेश में रहने वाले सबसे प्राचीनतम/पहला खानदान था। उन्होंने बलिया में एक पूर्ण रूप से कार्यकारी सरकार को स्थापित किया। मनु के जेष्ठ पुत्र इच्चवांशु यहां का प्रथम शासक था जिसके वैदिक संस्कृति में ख्याति प्राप्त थी।

16वीं शताब्दी में खोसला 16 महाजनपदों में से एक था। यहां पर महाखोसला का राज्य चलता था। यह जनपद जैन और बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित था।

खोसला, मोर्या, सांगा, कुशानन आदि अनेको खानदानों ने यहां पर शासन किया। कुशानन खानदान के अन्त के पश्चात बलिया जनपद गुमनामी अंधेरो में डूब गया। फाहेन के भारत भ्रमण के दौरान यह जनपद बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। 13वीं शताब्दी के आरम्भ में मुसलमान शासक भारत आने लगे।

बलिया जिला स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सैनानियों के विचारों से अनमिग्न नहीं था। 1857 के गदर के दौरान यह जनपद स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र था। दादा भाई नारांजी, पं. जवाहर लाल नहेरू, एस एन बैनर्जी आदि इस जनपद में आये और यहां के निवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया।

सन 1925 में पुरुषोत्तम दास टाउन, जवाहर लाल नहेरू बलिया आये और मिल्की में गांधी आश्रम के समारोह में सम्मिलित हुए। इसी दौरान महात्मा गांधी भी बलिया आये। बलिया जनपद ने सिविल डिस्ओविडियन्स मोवमेंट में भाग लिया। इस जनपद के निवासियों ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया।

12 अप्रैल 1930 को नमक आन्दोलन का अन्त हुआ और उत्पादित नमक खुले आम बाजारों में बिकने लगा। तत्पश्चात यही नमक रिओटी, रसा और बन्ध में बनाया जाने लगा।

स्वच्छ बलिया स्वस्थ बलिया



श्री दिनेश कु. विश्वकर्मा
(अधिशायी अधिकारी)

श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा
(अधिशायी अधिकारी)



श्री अजय कुमार (अध्यक्ष)

I am delighted to present the tasks and issue of Ballia Nagar Palika by ePatrika Ballia Sandesh in February 2019. Nagar Palika Parishad Ballia is grateful to the citizens who displayed tremendous enthusiasm and whole heartedly participated in numerous activities throughout this period. All of us should bear in mind that this is not end but a beginning of the exercise pertaining to development and Swachh Mission program. The coming times will surely be very hectic and eventful. Ballia promises to leave no room for complacency and will work even harder to achieve the targets. We solicit active participation from the citizens in our endeavor. We sincerely believe that decisions taken by Nagar Palika Parishad Ballia should benefit Nagar Palika Parishad Ballia and the citizens in the ultimate analysis. Many projects process in work in Nagar Palika Parishad Ballia for development our Nagar Palika and citizens. Thanks to all citizens of Nagar Palika Parishad Ballia for supporting to develop Ballia.

VASANT PANCHAMI

10/FEB/2019

विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना आज पूरे देशभर में बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाई जा रही है। यह त्योहार हिंदू धर्म में बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी से मौसम में बदलाव आना शुरू होता है यानि कड़ाकेदार सर्दियां जाने लगती हैं और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है जोकि अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा होता है। कहते हैं कि मौसम में बदलाव के साथ ही माहौल में भी सकारात्मकता महसूस होने लगती है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती (Devi Saraswati) की पूजा की जाती है।

इस दिन विभिन्न स्थानों पर विद्या की देवी वीणावादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विद्यार्थियों के साथ आम लोग भी मां सरस्वती की पूजा करते हैं और विद्या, बुद्धि और ज्ञान अर्जित करने की प्रार्थना करते हैं। मां सरस्वती को समर्पित इस पावन पर्व पर आप भी अपने इष्ट-मित्रों को इन शुभ सन्देशों (Messages) के माध्यम से बधाइयां (Wishes) दें-

फूलों की वर्षा,
शरद की फुहार,
सूरज की किरणे,
खुशियों की बहार
मुबारक हो आप सबको,
बसंत पंचमी का त्योहार
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

बहारों में बहार बसंत
मीठा मौसम मीठी उमंग
रंग बिरंगी उड़ती आकाश में पतंग
तुम साथ हो तो है इस ज़िंदगी का और ही रंग
Happy Basant Panchami



SHIVAJI JAYANTI

19/FEB/2019

छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले (1630-1680) [भारत](#) के राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 में [पश्चिम भारत](#) में [मराठा साम्राज्य](#) की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष [औरंगजेब](#) के [मुगल साम्राज्य](#) से संघर्ष किया। सन 1674 में [रायगढ़](#) में उनका [राज्याभिषेक](#) हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने [समर-विद्या](#) में अनेक नवाचार किये तथा [छापामार युद्ध](#) (Gorilla War) की नयी शैली ([शिवसूत्र](#)) विकसित की। उन्होंने प्राचीन [हिन्दू](#) राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और [फारसी](#) के स्थान पर [मराठी](#) एवं [संस्कृत](#) को राजकाज की भाषा बनाया।

[भारत के स्वतन्त्रता संग्राम](#) में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवनचरित से प्रेरणा लेकर [भारत](#) की स्वतन्त्रता के लिये अपना तन, मन धन न्यौछावर कर दिया। आज उनकी राजनीति कि तर्ज पर [नेपाल](#) व [भारत](#) में [शिवसेना](#) नाम का राजनैतिक पक्ष चला आ रहा है।

सह्याद्रीच्या छाताडातून, नाद भवानी गाजे
काळजात राहती अमुच्या, रक्तात वाहती राजे !!

तुफान गर्जतो, आण ओकतो,
वाघ मराठी माझा !

सन्मान राखतो, जान झोकतो
तुफानं मातीचा राजा !

'ताज महल अणर प्रेम की निशानी है'
तो 'शिवनेरी किला' एक शौर की कहानी है..

india.com

वसंत पंचमी की शुभकामनाएं

सेतों में सिले पीले-पीले फूल, पीली उड़े पतंग।

रंग बरसे पीता और छाप उमंग।

आपके जीवन में रहे सदा वसंत के रंग।

YOUR HINDI BLOG



शिवाजी जयंती की
हार्दिक बधाई

"अपना सर कभी ना झुकाए, इसे
सदैव ऊँचा रखो"

- छत्रपति शिवाजी महाराज

E NEWSLETTER 5

प्रयागराज का समग्र विकास
भारतीय रेल का सतत् प्रयास



सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर नये स्टेशन भवन,
द्वितीय प्रवेश द्वार, नवनिर्मित प्लेटफार्म सं. 4,
यार्ड रीमॉडलिंग एवं यात्री सुविधाओं का
उद्घाटन

तथा

भारतीय रेलवे की अंतिम मानवरहित समपार संख्या 28C
का मानवीकरण द्वारा समापन

मनोज सिन्हा

रेल राज्य मंत्री एवं
संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार
द्वारा

दिनांक 02 फरवरी 2019, समय 12:00 बजे

सूबेदारगंज स्टेशन पर किये गये विकास कार्य

- स्टेशन के दक्षिणी तरफ नये स्टेशन भवन एवं यात्री आरक्षण काउन्टर का निर्माण।
- प्लेटफार्म पर यात्रियों हेतु अत्याधुनिक सुविधायें जैसे विश्रामालय, रिटायरिंग रूम, आदि।
- प्लेटफार्म पर कोच इंडीकेशन बोर्ड तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था।

स्टेशन विकास से लाभ

- सूबेदारगंज स्टेशन 'टर्मिनल स्टेशन' हो जाने से इलाहाबाद जंक्शन पर ट्रैफिक दबाव कम होगा।
- रेलगाड़ियों का बेहतर परिचालन।
- रेलगाड़ियों की समयपालनता में सुधार।

कार्यक्रम स्थल : सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन



उत्तर मध्य रेलवे

भारतीय रेल, राष्ट्र की जीवन रेखा

आप सभी
सादर आमंत्रित हैं।

आत्मनिर्भर बन कर मुश्किलों का छात्राएं करें सामना

अमर उजाला के अपराजिता पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में एसपी ने छात्राओं को दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

बलिया। अमर उजाला अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स के तहत पुलिस की पाठशाला का आयोजन गुरुवार को गौरी भैया महाविद्यालय, संमरा घाट रोड, सागरपाली परिसर में किया गया। इसमें एसपी देवेन्द्र नाथ ने छात्र-छात्राओं को आत्मनिर्भर बन मुश्किलों से लड़ने के टिप्स दिये। छात्राओं के सवाल का जवाब भी दिया।

मुख्य अतिथि एसपी देवेन्द्र नाथ ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को यातायात, कानून तथा शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं व छात्राओं को सुरक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति रास्ते में छेड़खानी करे तो तत्काल 1090 तथा यूपी 100 को सूचना दें। इसके अलावा 181 हेल्प लाइन पर घरेलू हिंसा के लिए

सूचना दे सकती हैं। उन्होंने छात्राओं से अनुरोध किया अपनी सुरक्षा के लिए कराटे सीखें, बैग में मिर्ची पाउडर व मिर्च सें रखें। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अनुरोध किया कि यातायात नियम का पालन करते हुए पुलिस की



सहायता करें। इसके साथ ही अपने पिता, भाई को हेल्मेट लगाने के लिए अनुरोध करें। इसके पूर्व महाविद्यालय की संस्थापिका ममता सिंह, प्रबंधक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, सिद्धार्थ शंकर सिंह ने मुख्य अतिथि एसपी देवेन्द्र नाथ को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. ओपी यादव, संतोष गुप्ता, सुनीता करयप, आशुतोष पांडेय, संगीता वर्मा, राजेश कुमार सिंह, रितेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।



पुलिस पाठशाला कार्यक्रम को संबोधित करते पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र नाथ।



सागरपाली स्थित गौरी भैया डिग्री कालेज में अमर उजाला के अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में भाग लेती छात्राएं।

छात्राओं के सवाल, एसपी का जवाब

महिमा सिंह- अगर कोई व्यक्ति रास्ते में तेजाब फेंकता है तो क्या करें?

जवाब- तत्काल यूपी 100 या 1090 को सूचना दें और शोरगुल मचाएं। ऐसे लोगों के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। जिसके तहत सजा दी जाती है। इसके अलावा सावित्री बाई फुले योजना के तहत पीड़ित को शासन से अनुदान दिया जाता है।



महिमा



आरुषि

आरुषि सिंह- चाहर जाने पर अपहरण का डर बना रहता है ऐसा क्यों?

जवाब- ऐसा नहीं है, कैसे अगर कोई जरूरी कार्य न हो तो देर रात में घर से निकलने से परहेज करना चाहिये। खासतौर से सुनसान गली से आना-जाना नहीं चाहिये।

दीक्षा गुप्ता- अगर कोई कुछ रास्ते में करता है और फैमिली व पुलिस सपोर्ट नहीं करे तो क्या करना चाहिये?

जवाब- ऐसा नहीं है। हर फैमिली सपोर्ट करती है। इसके अलावा यूपी 100 व 1090 पर सूचना दे सकती हैं।



शालिनी गुप्ता

शालिनी गुप्ता- माता-पिता के साथ मारपीट होती है तो पुलिस मदद नहीं करती है ऐसा क्यों?

जवाब- ऐसा नहीं है। पुलिस सबका सहयोग करती है। मारपीट व्यक्तिगत होत है और सामाजिक भी होता है।

मोहिनी- अगर कोई बदतमीजी करे तो क्या करें? इसके लिए क्या कोई श्रृफ देना पड़ेगा।

जवाब- नहीं। आप स्वयं सबसे बड़ी श्रृफ है। इसके साथ ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं को है। समाज में कई प्रकार की विकृतियां हैं। धीरे-धीरे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं।



दीक्षा



मोहिनी

आंकड़ा


पशुओं का ब्योरा होगा ऑनलाइन

नस्ल सुधार से पहले जुटा रहे लेखा-जोखा

अमर उजाला ब्यूरो

बलिया। गोवंश की नस्ल में सुधार कर पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए पशुओं का ब्योरा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें पशुओं की संख्या के साथ ही नस्ल का भी जिक्र किया जाएगा। ताकि भविष्य में नस्ल सुधार कर बेहतर दुग्ध उत्पादन लिया जा सके। इससे दुग्ध उत्पादन में क्रांति आ सकती है। शासन के निर्देश पर 20 वीं पंचवर्षीय पशु गणना शुरू हुई है और ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। इसके लिए 115 गणनाकार, 21 सुपरवाइजर व छह स्कूटनी ऑफिसर की तैनाती की गई है। इस माह के अंत तक यह कार्य पूरा किया जाना है।

प्रत्येक पांच साल पर पशुओं की गणना की जाती है, इसका लेखा-जोखा पशुपालन विभाग की ओर से



115 गणनाकार, 21 सुपरवाइजर व 6 स्कूटनी ऑफिसर हैं तैनात

शासन को उपलब्ध कराया जाता है। पांच साल पहले हुई पशु गणना में जनपद में कुल पांच लाख छह हजार 163 पशु थे।

इसमें गोवंशीय के अलावा महिवांशीय पशु के साथ भेड़, बकरी आदि शामिल थे। बताया जाता है कि पूर्व में राजस्व कर्मियों की ओर से पशुगणना की जाती थी, लिहाजा वह खासकर नस्ल में अंतर नहीं कर पाते थे। वर्ष 2019 में भारत

सरकार के निर्देश पर पंचवर्षीय पशुगणना जनपद में एक दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है और फरवरी माह के अंत में समाप्त होगी। इस बार यह गणना पूरी हाईटेक तरीके से की जा रही है। जिला पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अशोक मिश्र ने बताया कि 115 गणना कार तैनात हैं, जिन्हें टैबलेट के साथ इंटरनेट के लिए सिम भी उपलब्ध कराया गया है। गणनाकार पशुओं के नस्ल के अनुसार गणना की फीडिंग ऑनलाइन करेंगे। इसकी मॉनीटरिंग के लिए कुल 21 सुपरवाइजर को तैनात किया गया है, जो ऑनलाइन फीडिंग की पड़ताल करेंगे। इसके बाद फीडिंग में किसी तरह के संशोधन की जरूरत होने पर इसके लिए प्रत्येक तहसीलों में एक-एक यानि कुल छह स्कूटनी ऑफिसर को तैनात किया गया है।

ब्योरा ऑनलाइन होने से योजनाओं को लागू करना होगा आसान

बलिया। पशु का ब्योरा ऑनलाइन होने से कई कार्य आसान हो जाएंगे। जिला पशु चिकित्साधिकारी की मर्ने तो पशुओं का लेखा-जोखा ऑनलाइन होने से पशुओं से संबंधित कार्ययोजना बनाना आसान हो जाएगा।

बताया कि ब्योरा ऑनलाइन होने से पशुओं के नस्ल सुधार के लिए चलाई जानी योजना के लिए सही डाटा मिल सकेगा। इसके अलावा इस व्यवस्था से सही डाटा सामने आएगा और आने वाले दिनों में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि 99 फीसदी बछिया ही पैदा हो ताकि छुट्टा पशु की समस्या से किसानों को राहत मिल सके।

कितनी बदल गई शिक्षा, शिक्षकों ने बताया

शिक्षकों ने परिवर्तन को कंप्यूटर पर दिखाया, नवाचार और विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों के माडलों को मिली सराहना

अमर उजाला ब्यूरो

बलिया। शैक्षिक गुणवत्ता एवं नवाचार कार्यशाला तथा विज्ञान प्रदर्शनी के दूसरे दिन बच्चों के माडलों ने एक बार फिर लोगों को आकर्षित किया। वहीं शिक्षकों ने अतीत से वर्तमान के सफर को प्रस्तुत कर बेसिक शिक्षा में हो रहे परिवर्तन को बताया। सरल पहले प्राथमिक विद्यालय पर जाने के बाद एक नई उमंग और जोश से शैक्षिक पारी की शुरुआत करने वाले इन शिक्षकों ने योजनबद्ध तरीके से अपनी सोच को मूर्त रूप दिया। जिसका प्रतिफल गुरुवार को उप्राय सिक्करपुर में साफ दिखा।

कार्यक्रम के समापन पर बीएसए संतोष कुमार राय ने शिक्षकों और छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कहा कि जनपद की प्राथमिक शिक्षा को मैं जिस रूप में देखना चाहता था, उसका एक प्रतिबिंब आज देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शनी को देखकर निःसंदेह कहा जा सकता है कि अब परिषदीय बच्चों भी माडल व कांवेन्ट स्कूल के बच्चों

बीएसए ने कहा, सरकारी स्कूल के बच्चे कांवेन्ट स्कूलों बच्चों से ले रहे टक्कर

बीएसए ने नवाचारी शिक्षकों को किया सम्मानित

दो दिवसीय कार्यशाला के समापन पर बीएसए संतोष कुमार राय ने सभी नवाचारी शिक्षकों व विज्ञान प्रदर्शनी में अपना माडल प्रस्तुत करने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बीएसए के हार्थो सम्मान पाकर शिक्षक व बच्चे काफी खुश थे।

के साथ कदमताल कर रहे हैं। कहा, इस कार्य में संलग्न शिक्षकों व उन मामूम प्रतिभाओं को मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बीएसए ने बच्चों से हाथ मिलाकर उनकी होसलाफजाई की। इस दौरान निर्भय नारायण सिंह, नरेन्द्र सोनकर, अवधेश राय, मोतीचंद्र चौरसिया, लालजी शर्मा, सुनील पटेल, एसमन त्रिपाठी, डीसी ओमप्रकाश राय



नवाचारी एवं विज्ञान माडल प्रदर्शनी कार्यक्रम में माडलों को देखते बीएसए संतोष राय।

बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए होते रहने चाहिए कार्यक्रम

सिकंदरपुर। कार्यक्रम स्थल का नजारा देखते ही बन रहा था। सभागार में जहां शिक्षक अपने नवाचार को पोपीटी से प्रदर्शित कर रहे थे। वहीं बाहर प्रदर्शनी में आगंतुकों के साथ ही बच्चे विभिन्न माडल को देखकर उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। जिला स्तर पर पहली बार आयोजित कार्यक्रम में शामिल शिक्षक व बच्चे काफी उत्साहित थे। उनका कहना था कि ऐसा कार्यक्रम समय-समय पर होना

चाहिए। इस मौके पर आशुतोष तोमर, अनिल वर्मा, संतोष तिवारी, राजु गुप्त, नंदलाल शर्मा, किनय भारद्वाज, विपीन जायवाल, सत्यप्रकाश सिंह, डॉ मोहन कांत राय, आशुतोष ओझा, अमरनाथ यादव, चंद्र मिश्र, कमला सिंह, विजेता सिंह, प्रवीण कुमार, अशोक पांडेय, संगीता वर्मा, अंजना सिंह, सरवत अफरोज, अजय पांडेय, गिरिश तिवारी, बलवंत सिंह, जेपी सिंह, आदर्श सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

इत्यादि ने अपना विचार दिया। आलम अंसारी व प्रायि के प्रअ स्वागत व संचालन नवाचारी शिक्षक उप्राय सिक्करपुर के प्रअ जहीर अशोक यादव ने सभी आगंतुकों का उमेश कुमार सिंह ने किया।

पांच दिनी राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू

अमर उजाला ब्यूरो

सोनभद्र। जिले में आठवीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी एवं नेशनल प्राइज मनी प्रतियोगिता वृहस्पतिवार से विशिष्ट स्टेडियम तियरा में शुरू हो गई। इसमें यूपी की 22 टीमों हिस्सा ले रही हैं। प्रथम चरण में सीनियर, जूनियर बालक-बालिका रिकर्व प्रतियोगिता और फिर इंडियन राउंड सीनियर बालक-बालिका प्रतियोगिता हुई।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि हर गांव में खेल का मैदान खोलो इंडिया के तहत स्थापित किया जाएगा। भारतीयों में खेल का भाव पैदा करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। एक फरवरी को कंपाउंड जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता सुबह आठ से दस बजे तक, सीनियर वर्ग सुबह दस से 12 बजे तक, इंडियन राउंड जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता दोपहर बाद एक बजे से तीन बजे तक, सीनियर वर्ग तीन से पांच बजे तक होगी। दो फरवरी को ओलंपिक राउंड की प्रतियोगिता सुबह आठ से शाम पांच बजे तक, तीन फरवरी को नेशनल प्राइजमनी

30 जिले के करीब 450 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा

सीनियर पुरुष में प्रेरित और महिला में मधु रही प्रथम

सोनभद्र। सीनियर रिकर्व पुरुष में प्रेरित वेदवान बागपत प्रथम, विशाल मेरठ द्वितीय, विजय कुमार सोनभद्र तृतीय रहे। इसी तरह सीनियर महिला रिकर्व में मधु वेदवान बागपत प्रथम, कशिश खां बदायूं द्वितीय, जौनत आरा सोनभद्र तृतीय और नमिता वर्मा गाजीपुर चौथे स्थान पर रही। इसी तरह जूनियर रिकर्व महिला में प्रथम कशिश खां बदायूं, द्वितीय जौनत आरा सोनभद्र और तृतीय नमिता वर्मा गाजीपुर रही।

प्रतियोगिता होगी। चार फरवरी को सभी वर्ग के प्रतियोगिताओं का फाइनल होगा। प्रतियोगिता में प्रदेश के 30 जिले के करीब 450 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 320 पुरुष व 130 महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

सफाई करेंगे, छुट्टा पशुओं को भी पकड़ेंगे

अमर उजाला ब्यूरो

हनुमानगंज। छुट्टे पशुओं पर लगाम कसने के लिए हनुमानगंज ब्लाक स्तर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इस संबंध में अमर उजाला की खबर 'किसानों के लिए मुसीबत बने छुट्टा पशु' जो छह फरवरी के अंक में प्रकाशित की गई का संज्ञान लेते हुए बीडीओ राजेश ने की अध्यक्षता में

बुधवार को कर्मियों संग बैठक की। ब्लाक के सभी गांवों के सफाईकर्मियों को जिम्मेदारी दी गई कि वह सफाई करने के साथ ही छुट्टा पशुओं को पकड़ेंगे।

उनके बीडीओ जब तक कांजी हाउस का निर्माण नहीं होता, तब तक प्रधान और सचिव के सहयोग से छुट्टा पशुओं को गांव में किसी सुनिश्चित स्थान पर रखा जाएगा। बीडीओ ने बताया कि क्षेत्र में किसानों की फसलों के भारी नुकसान को देखते हुए यह कदम

उठाया गया है।

प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद छुट्टे पशुओं पर लगाम कसने के लिए सख्त निर्देश दिया था। हालांकि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस पर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए नगर पालिका तथा नगर पंचायत द्वारा अभियान चलाकर बड़े पैमाने में छुट्टे पशुओं को धरपकड़ करने का काम किया था।

कुछ दिन बाद ही अधिकारी इस निर्देश पर उदासीनता बरतने लगे थे। लेकिन अमर उजाला ने एक बार फिर से जिला प्रशासन को जगाने का काम किया है। इसके फलस्वरूप हनुमानगंज में एक पहल देखी गई जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस संदर्भ बीडीओ राजेश यादव ने बताया कि फिलहाल कांजी हाउस की कमी है लेकिन निर्माण होने तक पकड़े गए सारे छुट्टा पशु गांव के ग्राम प्रधान व सचिव के जिम्मे रहेंगे।



आजादी के नायकों को बनाएं आदर्श

बलिया के प्रथम शहीद पं. रामदहिन ओझा का स्मृति दिवस मनाया
अमर उजाला ब्यूरो

बलिया/बांसडीह। नगर के टीडी कालेज चौराहे पर सेनानी पंडित रामदहिन ओझा की स्मृति दिवस का आयोजन उनके प्रतिमा स्थल पर किया गया। इस दौरान उनके शुभेच्छुओं और परिवार के सदस्यों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह तथा विनोद तिवारी ने माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कुतिल्व पर प्रकाश डाला।

भाजपा नेता सिंह ने कहा कि पंडित रामदहिन ओझा अप्रतिम योद्धा थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सबकुछ त्यागकर भाग लिया। अंग्रेजों के साथ उनके कई बाद मतभेदों के चलते जेल भी जाना पड़ा। इस मौके पर अरुण सिंह बंदू, विनोद शंकर दुबे, जाकिर हुसैन, विनोद तिवारी, मंदू सिंह, ददन पांडेय आदि मौजूद रहे। नरेंद्र ओझा ने आभार प्रकट किया।

उधर, बांसडीह डाक बंगला स्थित शहीद की प्रतिमा पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। साथ ही गरीब और असहाय महिल्लओं में वस्त्र वितरित किए गए। गोष्ठी का आयोजन किया



रामदहिन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते परिवार के सदस्य और भाजपा नेता।

प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि

गोष्ठी में भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद शंकर दुबे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण से हम कभी नहीं चुका सकते। आज उनकी ही बंदीत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। युवा पीढ़ी को शहीद ओझा की शहादत और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर पाठक और रेवती नगर पंचायत के चैयरमैन प्रतिनिधि कनक पांडेय ने कहा कि शहीद

ओझा ने अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस मौके पर विद्याशंकर पांडेय, लक्ष्मण दुबे, रामजी सिंह, डा. डीके शुक्ला, राजकुमार गुप्ता, सर्जय सिंह, राजेंद्र सिंह, चंद्रवली वर्मा, विनय सिंह, मुनजी कुमार, अखिलेश गुप्ता, रामशीष वर्मा, मृदुल ओझा, लक्ष्मी तिवारी, हृदयानंद सिंह, दिनेश तिवारी, अवधेश पांडेय आदि रहे। संचालन शहीद रामदहिन ओझा स्मारक समिति के संयोजक प्रतुल कुमार ओझा ने किया।

बच्चों की वैज्ञानिक समझ को पुरस्कार

जिला स्तरीय नवप्रवर्तनों की प्रदर्शनी सम्पन्न, कक्षा 9-12 वर्ग में प्रथम स्थान दीपक को मिला

अमर उजाला ब्यूरो

बलिया। माही हाई स्कूल, सुल्तानपुर में आयोजित जिला स्तरीय स्थानीय नवप्रवर्तनों की प्रदर्शनी में मॉडलों के निर्माण में बच्चों ने अपनी विज्ञान की समझ का प्रदर्शन किया। कक्षा 9 से 12 तक में प्रथम स्थान दीपक यादव एवं सौरभ सिंह, द्वितीय स्थान अंकिता गुप्ता ने तथा तीसरा स्थान शशि यादव ने प्राप्त किया। निशा प्रजापति, प्रिया गुप्ता, नेहा, नंदिनी एवं साक्षी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री हैदर अली ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा बनाये गये मॉडलों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर सही दिशा मिले तो वे बहुत आगे जाएंगे। विशिष्ट अतिथि रमेश सिंह, विधायक प्रतिनिधि रसड़ा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों द्वारा बनाया गया मॉडल देखकर मन प्रफुल्लित हो गया।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जिला विज्ञान क्लब, बलिया द्वारा नवप्रवर्तन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नवप्रवर्तनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें एनआरआई स्कूल, चित्रगुप्त हाई स्कूल, ज्ञान दायिनी, शिवा जी शिक्षा निकेतन, सेंट मैरिज स्कूल, ओम कांवेन्ट स्कूल, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल समेत विभिन्न स्कूलों ने प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी (कक्षा 4 व कक्षा 5) में प्रथम स्थान शिव कुमार यादव, द्वितीय स्थान अंशिका गुप्ता एवं शिवांगी सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अनुराग राजभर, रागिनी सिंह एवं रितेश चौहान को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। (कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) में प्रथम स्थान समीर सिंह व इमरान अंसारी, द्वितीय स्थान पायल गुप्ता एवं सूर्याश सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। आलोक सिंह, नित्यानन्द एवं अभिषेक यादव को



जिला विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में बच्चों की तरफ से बनाए गए मॉडल देखते लोग। अमर उजाला

कक्षा 4 व 5 वर्ग में शिव कुमार को मॉडल बनाने के लिए प्रथम स्थान

लोगों ने कहा ग्रामीण इलाके के बच्चों को मौका मिले तो भविष्य संवरेगा

सांत्वना पुरस्कार दिया गया। वेस्ट मैटेरियल से बनाये गये मॉडलों/नवप्रवर्तकों में (जूनियर वर्ग) में प्रथम स्थान रेहान आलम, द्वितीय स्थान नेहा यादव ने तीसरा स्थान नाजिया खातून ने प्राप्त किया,

तथा पलक गुप्ता, अंशु यादव तथा आराधना सौरभ को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। (सीनियर वर्ग) में प्रथम स्थान अंशु यादव, द्वितीय स्थान फिजा नसरीन एवं काजल यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया,

तथा संजना कुमारी एवं मनीषा पासवान को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विद्यालय के प्रबन्धक अशहर खुशीद ने जिला विज्ञान क्लब को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस मंच की वजह से ही आज हमारे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा जिला विज्ञान क्लब, बलिया के समन्वयक अतुल कुमार ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आदित्य कुमार अंशु ने किया तथा आभार जिला विज्ञान क्लब, बलिया के सह समन्वयक डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने व्यक्त किया। इस अवसर पर सरोज अहमद, प्रधानाचार्य, डॉ सुनील कुमार ओझा, स्मार्टल अंसारी, सियाराम यादव, राजेश कुमार यादव, सत्येन्द्र कुमार शर्मा, अश्वनी तिवारी, अविनाश पाण्डेय, शिवजी, अनिल गुप्ता, राजनारायण सिंह, संतोष कुमार आदि ने सक्रिय सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया।



स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

जब होगी हर डगर, हर गली साफ |
तो ही पूरी होगी स्वच्छ भारत की आस ||

हर गाँव हर शहर होगा जब साफ |
तभी हो पाएगा देश का सही विकास ||

स्वच्छ भारत अभियान है एक आस |
ताकि हो भारत देश का सम्पूर्ण विकास ||

स्वच्छता ही है एक मात्र उपाए |
जो सभी को हमेशा स्वस्थ बनाए ||

स्वच्छता है महा अभियान |
स्वच्छता मे दीजिए अपना योगदान ||

हाथ से हाथ मिलाना है
गंदगी नहीं फैलाना है
स्वच्छता को अपनाना है

स्वच्छ भारत मिशन बलिया

श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा

(अधिशाषी अधिकारी)

श्री अजय कुमार

(अध्यक्ष)

Contact Us



: www.fageosystems.in



: info@fageosystems.in

Tel/Fax : 01204349756